

Bablu Mehta ke ghar To Blo/a yadav  
(Home) (GITSNY)

**Schedule XLV-Form No. 134**

\_\_\_\_\_ **DIVISION**

Tsivengomzi \_\_\_\_\_ **SUB-DIVISION**



**Measurement Book**

MBNO - 687  
ruthen kumar

GTSNY के लिए अनुरक्षण मद की राशि से संबंधित अधियाचना प्रपत्र															
कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज															
क्रमांक	पथ का नाम	संवेदक का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि की विवरणी						कुल व्यय (MIS के आधार पर)	वर्तमान अधियाचित राशि				
				प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)		प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bablu Mehta ke Ghar to Bhola Yadav Home	Mithun Kumar	05.07.19	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.27553	0.31356
2	Kamleshwari Sah ke Ghar to Bikan Chaudhary ke Ghar tak	Mithun Kumar	09.07.19	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.20597	0.23534
Total										0.00000					1.03040

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) उपरोक्त पथों का मूल कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया जा चुका है।
- (2) संवेदकों के द्वारा किये गये अनुरक्षण कार्य का मासिक विपत्र प्रमंडल में प्राप्त है।

  
 कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज  




**FORM GFR -19 - A**  
**(See Government of India's Decision (i) below Rule - 150)**  
**Form of Utilization Certificate up to 22.10.2024**  
**(GTSNY Maintenance Fund)**

Sl. N.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Lacs Rs.)	Total Amount Received (in Lakh Rs.)	Particulars
1	2	3	4	5
1.	Construction of Rural Road under GTSNY Maintenance Scheme	Total Allotment received vide Secretary-cum-Empowered Officer BRRDA, Additional CEO, Patna Letter No-78 encl dated-14.06.2023 by CFMS Letter No-83 encl dated-30.06.2023 by CFMS Letter No-78 encl dated-14.06.2023 by CFMS Letter No-86 encl dated-06.07.2023 by CFMS Letter No-178 encl dated-19.12.2023 by CFMS Letter No-198 encl dated-22.01.2024 by CFMS	Rs- 54.31898 Lakh	Total Allotment Rs.- 54.31898 Lakh CFMS Expenditure Rs.- 33.50846 Lakh Balance Rs.- 20.81052 Lakh
2.	<p>Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants in aid sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have Exercised the following Checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .</p> <p>(i) Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.</p> <p>(ii) Periodical inspection has been conducted by A.E. / Executive Engineer / Superintending Engineer.</p> <p>(iii) Construction materials have been tested.</p> <p>(iv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive</p>			

# 5th Year Maint. Bill

15

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: - Const. of					
Road from Bablu Mehta					
Ke ghar TO Bhole Yadav.					
Hose.					
Agency: - Mithun Karmad					
Agreement No: - 155/UTSNY/2018-19					
Rate approval: - 10% Below.					
Date of start: - 12-01-2019					
Date of compl <sup>m</sup> : - 11-07-2019					
Actual Date of compl <sup>m</sup> : - 05-07-2019					
Date of Entry - 25-06-2024					

## 1) Restoration of Rein. cut

$$4 \times 15M \times 1.35 \times 0.30 = 24.30M^3$$

$$8 \times 09M \times 1.20 \times 0.30 = 25.92M^3$$

$$1 \times 11M \times 1.0 \times 0.30 = 3.30M^3$$

$$53.52M^3$$

## 2) Making up of Beams/

Shoulder-2

$$5 \times 25M \times 0.30 = 37.50M^2$$

$$9 \times 30M \times 0.30 = 81.0M^2$$

$$7 \times 22M \times 0.30 = 46.20M^2$$

$$4 \times 18M \times 0.30 = 21.60M^2$$

$$8 \times 10M \times 0.20 = 24.0M^2$$

$$5 \times 28M \times 0.30 = 42.0M^2$$

$$Total = 252.30M^2$$

Continuation





Continuation

Scanned with OKEN Scanner